

केंद्रीय विद्यालय ओ.ई.एफ़. कानपुर

KENDRIYA VIDYALAYA OEF KANPUR

सेवा मे

आदरणीय अभिभावक,

आपके पाल्य की सुरक्षा-संरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधोहस्ताक्षरी आपसे निम्नलिखित आग्रह करना चाहता है:-

1. सभी विद्यार्थी निर्धारित समय तक विद्यालय अवश्य पहुंचें।
2. विद्यार्थियों को निर्धारित समय से ½ घंटा पूर्व तक ही विद्यालय परिसर में प्रवेश करने की अनुमति होगी। अभिभावक कृपया अपने पाल्य को विद्यालय का प्रवेश द्वार खुलने से पूर्व द्वार पर छोड़कर न जाएं।
3. विलंब से आने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दे पाना संभव नहीं होगा एवं उन्हें अपने माता / पिता के साथ वापस जाना होगा।
4. अभिभावक कृपया अपने पाल्य को छोड़ने हेतु विद्यालय परिसर में प्रवेश न करें तथा विद्यार्थियों को स्वयं ही कक्षा में जाने दें।
5. अभिभावक अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा विद्यालय समय में विद्यार्थियों के लिए लायी गयी कोई वस्तु यथा टिफिन, पानी की बोतल, इत्यादि को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
6. प्राचार्य अथवा किसी शिक्षक से आकस्मिक परिस्थितियों को छोड़कर केवल निर्धारित समय प्रातः 9 से 10 बजे के बीच ही मिलें।
7. आकस्मिक / अपरिहार्य परिस्थितियों में अभिभावक / व्यक्ति केवल प्राचार्य की अनुमति से ही विद्यालय परिसर में प्रवेश कर सकेंगे एवं प्राचार्य / शिक्षक से मिल सकेंगे। विद्यालय आने पर आप अपना परिचय-पत्र साथ अवश्य लायें, बिना परिचय-पत्र आपको विद्यालय में प्रवेश से रोका जा सकता है। परिचय पत्र में सर्विस कार्ड, आधार कार्ड, चुनाव पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स आदि हो सकते हैं।
8. यदि विद्यालय का गार्ड आपको रोकता है और आगंतुक पंजिका में प्रविष्टि करने को कहता है तो कृपया सहयोग करें एवं उसके साथ अभद्र व्यवहार अथवा अनावश्यक तर्क-वितर्क न करें।
9. किसी भी व्यक्ति को पान मसाला, गुटका, पान, तंबाकू सिगरेट अथवा अन्य किसी अवांछित वस्तु / द्रव्य के सेवन के साथ विद्यालय में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
10. अभिभावक अपने पाल्य को विद्यालय से अपराहन 02:00 बजे तक ले जाना सुनिश्चित करें।
11. विद्यालय आते समय बच्चे के बैग की जांच अवश्य करें। सभी आवश्यक सामान जैसे-कपियां, किताबें, पानी की बोतल, टिफिन, पेंसिल आदि सामान होना आवश्यक है। कोई भी सामान खरीदने के लिये विद्यालय से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।
12. अभिभावक कृपया यह सुनिश्चित करें कि उनका पाल्य विद्यालय द्वारा दिये गए पहचान पत्र के साथ ही विद्यालय आए एवं पहचान पत्र में वर्णित सभी सूचनाएँ पूर्ण और सही हों।
13. बच्चे के बैग में कोई आपत्तिजनक या अनावश्यक सामान न हो, यह अवश्य सुनिश्चित करें।
14. स्कूल से घर जाने पर यदि बच्चे के व्यवहार में कोई अवांछित परिवर्तन दिखाई देता है तो बच्चे को विश्वास में लेकर जानकारी प्राप्त करें, तथा विद्यालय को तुरन्त अवगत करायें।
15. बच्चे जिस वाहन से विद्यालय आते-जाते हैं उसके ड्राइवर का नाम, पता, कांटेक्ट नम्बर, ड्राइविंग लाइसेन्स, अग्निशमन यन्त्र आदि की गहनता से जांच अवश्य करें एवं ड्राइवर एवं वाहन से संबन्धित सूचना कक्षाध्यापक को अवश्य उपलब्ध कराएं।
16. बच्चों को समय पर विद्यालय पहुंचाना तथा समय पर विद्यालय से ले जाना सुनिश्चित करें। विद्यालय द्वारा संपर्क करने पर अभिभावक कृपया यथाशीघ्र विद्यालय आने का प्रयास करें।
17. अभिभावक अपने पाल्य को किसी अज्ञान व्यक्ति से बात न करने और कोई वस्तु स्वीकार न करने के लिए परामर्श / निर्देशित करें।
18. किसी भी व्यक्ति को बिना प्राचार्य की अनुमति के विद्यालय परिसर में वाहन लाने की अनुमति नहीं होगी।
19. घर से विद्यालय आने-जाने वाले मार्ग की पूरी जानकारी रखें तथा समय-समय पर रास्ते की गतिविधियों की जानकारी अवश्य लेते रहें तथा विद्यालय को भी अवगत कराते रहें।
20. अपने बच्चों के मित्रों अथवा पड़ोसी बच्चों जो इस विद्यालय में पढ़ते हैं अथवा आपके बच्चे के वाहन में आते-जाते हैं के कांटेक्ट नम्बर अभिभावक अपने पास अवश्य रखें तथा कक्षाध्यापक को भी नोट करायें।
21. जब तक विद्यालय से आपको लिखित सूचना न दी जाये, बच्चों को कभी भी अनावश्यक पैसे न दें।
22. यदि कभी आपात की स्थिति में बच्चे को विद्यालय से ले जाने की आवश्यकता हो तो परिचय पत्र दिखाकर केवल माता-पिता ही बच्चे को विद्यालय से ले जायें, इस कार्य हेतु किसी अन्य सम्बंधी को न भेजें।
23. बच्चे के अवकाश हेतु स्वहस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र अभिभावक स्वयं लेकर विद्यालय आयें, बच्चों से अवकाश का प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
24. स्कूल आने पर किसी भी कक्षा या बरामदे में न घूमें वरन सीधे प्राचार्य, उप-प्राचार्य अथवा प्रधानाध्यापक से सम्पर्क करें और उनकी अनुमति से ही बच्चे अथवा संबन्धित शिक्षक से मिलें।
25. अपने पाल्य को समय-समय पर सुरक्षा सम्बंधी सावधानियों से अवश्य अवगत कराए।
26. विद्यालय से संबन्धित अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए कृपया विद्यालय की वेबसाइट www.kvoefkanpur.org.in का अवलोकन करें।
27. बच्चे देश का भविष्य हैं, इनकी सुरक्षा-संरक्षा सुनिश्चित करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। आप से आपेक्षा की जाती है कि आप सभी इस कार्य में विद्यालय का सहयोग अवश्य करेंगे।
28. आपके बच्चे के उज्ज्वल एवं सुरक्षित भविष्य की शुभकामनाओ सहित।

(राजगुरु सिंह)
प्राचार्य